



इस कैनेडा डे का जशन सुरक्षित तरीके से मनाएं!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को, 1 जुलाई को कैनेडा डे (Canada Day) को पटाखे चलाते समय, सुरक्षित रहने का महत्व याद करवाती है।

कैनेडा डे, साल के उन चार दिनों में से एक है, जब ब्रैम्पटन में निजी प्रॉपर्टी पर, परमिट के बिना, छोटी-रेंज के पटाखों की अनुमति होती है। बाइ-लॉ के अंतर्गत, विक्टोरिया डे (Victoria Day), दीवाली (Diwali) और नववर्ष (New Year's Eve) को भी पटाखे चलाने की अनुमति होती है।

छोटी-रेंज के पटाखे ऐसे पटाखे हैं, जो चलाए जाने पर 3 मीटर (10 फुट) से कम दूरी तक जाते हैं (उदाहरण के लिए, अनार, चक्कर, ज़मीनी चक्कर, फुलझड़ियां)। जो मोटे तौर पर ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की बस या बास्केटबॉल हूप जितनी ऊंचाई पर जाते हों।

अन्य सभी रॉकेट किस्म में पटाखों पर ब्रैम्पटन में पाबंदी है। सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि पटाखों को स्ट्रीट में, साइडवॉक्स पर, सिटी के पार्कों के अंदर या म्युनिसिपल या स्कूल की अन्य प्रॉपर्टीज पर चलाने की अनुमति नहीं है और यह कि उन्हें केवल रात 11 बजे तक ही चलाने की अनुमति है।

निजी प्रॉपर्टी पर छोटी-रेंज के पटाखे चलाते समय, निवासियों के लिए इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:

- अपने पास पानी का कंटेनर या पानी से भरी कोई होज़ लाइन रखें, जो पटाखे बुझाने के लिए उपलब्ध हो।
- फुलझड़ियों के अलावा, कभी भी पटाखों को अपने हाथों में पकड़कर न चलाएं या जलते हुए पटाखों को हाथ में न पकड़ें।
- कभी भी पटाखों को अन्य लोगों पर न फेंकें या उनकी तरफ करके न चलाएं।
- फुलझड़ियां चलाने के बाद, उनका निपटारा करने से पहले, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए उन्हें पानी के कंटेनर में डाल दें।
- सभी पटाखों का निपटारा करने से पहले, उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें।

पटाखों से सुरक्षा और बाइ-लॉज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/fireworks पर जाएं।